

REGD. OFFICE & FACTORY: KM 25/4, KALPI ROAD, RANIA, KANPUR DEHAT - 209 304 U.P. (INDIA)

Tele Office: +91-5111-240212, 240213 • Fax: +91-5111-240214

CORPORATE OFFICE: E-14, PANKI INDUSTRIAL AREA, SITE-I, KANPUR - 208 022 U.P. (INDIA)

Tel. No.: 0512-2691207, 2691208

e-mail: info@frontiersprings.co.in • Website: http://www.frontiersprings.co.in CIN No.: L17119UP1981PLC005212

February 10, 2020

To Bombay Stock Exchange Limited Department of Corporate Affairs Floor 25, PJ Towers, Dalal Street Mumbai-400001 Script Code: 522195

<u>Subject: Submission of newspaper publication of Unaudited Financial Results</u> for the guarter ended December 31, 2019.

Dear Sir/Madam

In compliance to Regulation 30(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we are hereby forwarding the copies of Newspaper Publications of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2019 published today in Business Standard and Rashtriya Sahara.

Kindly take the above on record and oblige.

Thanking You Yours Faithfully, For Frontier Springs Limited

KM Darry Bhasin

Kalpi Rood Pany Secretary & Compliance Officer)

Encl's: As above



As virus toll climbs, China's cities turn into ghost towns

CHINA CLIMBS TO 813

MODI WRITES TO XI, OFFERS HELP

SURGICAL MASK **EXPORT BAN LIFTED**

Hong Kong firms to get \$3.9 bn relief from HSBC

HK\$30 billion (\$3.9 billion) in liquidity relief

deadly coronavirus weighs on the economy.

secured by property, as well as those with taxi

Measures include a principal repayment

and public minibus loans, according to a

Hong Kong businesses are set to benefit from over

offered by HSBC Holdings to support firms as the

moratorium for borrowers with commercial loans

Trade finance customers can also apply for

access to an overdraft of up to HK\$10 million for six

months to help with daily operational needs like

he capital of China and financial hubs, Beijing and Shanghai, turned nto ghost towns after the government there extended holidays and asked residents not to go out. The picture was pretty much the same in other Chinese cities. The epidemic has killed 813

people and infected more than 37,000 in China as of February 9. Only a few people were brave enough to come out. A security guard at Jingshan Park in Beijing said there was less than a third of the number of tourists than usual. Businesses, including shops, bars and restaurants, have been severely hit as the government has banned mass gatherings and even group meals in an effort to curb the spread of the virus. Only a handful of the more than 100 restaurants along Beijing's famous food street, Guijie, were

Thousands of people stranded aboard a cruise ship in Hong Kong for five days were allowed to disembark on Sunday after its 1,800 crew tested negative for the deadly new coronavirus.

Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has conveyed assistance. In a letter to Xi, Modi masks and all gloves except expressed solidarity with the NBR gloves are allowed president and people of China over the outbreak of the virus, official sources said.

The prime minister also notification. conveyed to Xi his appreciation for facilitating evacuation of that export of all other around 650 Indian citizens from the Hubei province last week. equipment, including

The central government has N-95 and other equipremoved surgical masks and export items, according to a for exports.



Indians, who were airlifted from Hubei province of China's Wuhan, undergo screening at a quarantine facility in New Delhi on Sunday. PHOTO: PTI

China allocates \$10.3 bn to fight coronavirus

China's finance ministry said on Sunday all levels of the government had allocated 71.85 billion yuan (\$10.26 billion) to fight the coronavirus. The ministry will deploy the funds to ensure that members of public can afford treatment. The funds will also be used to ensure that efforts of every region to fight the virus are not hampered.

China's central bank also said on Sunday it would offer a 300 billion yuan (\$43 billion) boost statement from HSBC on Sunday. next week to help businesses involved in fighting the virus. The People's Bank of China will offer the first tranch of special re-lending funds on Monday. AGENCIES employee payrolls and rent.

to Chinese President Xi Jinping notification. "... items such as India's readiness to provide surgical masks/disposable freely for export," the

> foreign trade said in a However, it said personal protection

directorate general of

ment accompanying masks and gloves from a list of banned gloves shall remain prohibited

Indian pharma firms are situation," closely monitoring the outbreak Pharmaceutical Alliance sec-


> active pharmaceutical said. ingredients, if the situation does not improve soon. China accounted for 67.56 per cent of total imports of bulk drugs and drug intermediates in 2018-19 at \$2,405.42 million.

"The government is working in an integrated way to deal

Indian as it could impact the supply of retary general Sudarshan Jain

AGENCIES

In another development, the Directorate General of Civil Aviation stopped pre-flight breathalyser (BA) tests for crew operating out of Kerala's four airports — Calicut, Kannur, Trivandrum and Cochin — during the next 15 days. However, the flight crew departing from these airports will compulsorily undergo post-flight tests at the the city where they land.



INSPIRED EXCELLENCE

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019

		Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended		
Particulars	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income from operations	67,585	65,348	66,125	1,97,389	1,96,152	2,65,426	
Net Profit / (Loss) for the period before tax and exceptional items)	3,935	6,772	8,266	17,933	24,132	30,804	
Net Profit / (Loss) for the period before tax after exceptional items)	532	6,108	8,266	13,866	24,132	30,804	
Net Profit / (Loss) for the period after tax after exceptional items)	278	3,408	5,116	8,209	14,847	19,684	
Total comprehensive income for the period Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)]	333	2,563	8,656	10,466	17,841	22,319	
Paid-up equity share capital Face value Rs. 5 per share]	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	
Reserves excluding revaluation reserves						1,37,183	
Earnings per share (not annualised except rear ended 31.3.2019) - in Rupees after exceptional items)							
a) Basic	0.28	3.46	5.20	8.34	15.08	19.99	
o) Diluted	0.28	3.46	5.20	8.34	15.08	19.99	

Notes:

Key Standalone financial information of the Company is given below:

		A STATE OF THE STA	Quarter Ende	d	Nine Mon	Year Ended	
Particulars		31,12,2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
alut		Unaudited	Unaudited	Unaudited (Re-presented)	Unaudited	Unaudited (Re-presented)	Audited
1A.	Income from Operations	43,122	44,585	45,401	1,32,517	1,32,836	1,74,526
1B.	Profit before exceptional items and tax	5,797	8,456	8,788	22,983	26,313	34,969
1C.	Profit before tax	3,232	8,456	8,788	20,418	26,313	34,969
1D.	Profit after tax	2,115	5,756	5,636	13,602	16,930	23,604
1E.	Total comprehensive income	1,499	3,867	10,179	11,354	17,261	25,497

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone and Consolidated results for the quarter and nine months ended on 31 December, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited Standalone and Consolidated results for the quarter and nine months ended on 31 December, 2019 are available on the website of the Stock Exchanges (www.nseindia.com/www.bseindia.com) and the Company's website (www.himatsingka.com/Investorrelation/financialresults).

Place : Bengaluru

Date: 08 February, 2020

Dinesh Himatsingka Shrikant Himatsingka Executive Chairman Managing Director & CEO

Himatsingka Seide Limited

Registered Office: 10/24, Kumara Krupa Road, High Grounds, Bengaluru - 560 001, India T: +91-80-22378000, F: +91-80-4147 9384, E investors@himatsingka.com www.himatsingka.com CIN: L17112KA1985PLC006647



(Largest Manufacturer of Springs for LHB Coaches)

Registered Office: KM 25/4, Kalpi Road, Rania, Kanpur-Dehat. 209304 CIN: L17119UP1981PLC005212

E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: http://www.frontiersprings.co.in Tel. No. 0511-240212-13, 0512-2691207-08, Fax No. 0512-2691209

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31" DECEMBER, 2019

		(Rs. in lakhs	, except per	share data)
SI. NO.	Particulars	Quarter ended		Previous year Quarter ended
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)
1	Total Income from operations	2867.60	7857.89	2118.47
2	Net Profit for the period before Tax	574.82	1284.65	238.10
3	Net Profit for the period after Tax *	427.25	947.70	194.61
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	431.11	959.65	197.17
5	Equity Share Capital	396.32	396.32	396.32
6	Reserves(excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year		SECTION AND ADDRESS OF	ON SITURD
7	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each)			
	- Basic (Rs.)	10.95	24.37	5.01
archie.	- Diluted (Rs.)	10.95	24.37	5.01
e de la	*Not annualised			

*The Company does not have any Exceptional and Extraordinary items to report for the above period. NOTES:-

The above financial results, have been reviewed and approved by the audit committee and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 08th February, 2020.

2. The Statutory Auditors have carried out limited review of the financial results for the quarter and ended 31st December, 2019 as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards), Rules, 2015, as amended, prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued

thereunder. Previous period figures have been regrouped/ reclassified where considered necessary to conform to current period's classification / disclosure.

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and also on the Company's Website www.frontiersprings.co.in

For and on behalf of the Board of Directors Kundan Lal Bhatia

Place: Kanpur Date: 08th February, 2020 (Chairman cum Managing Director) DIN:00581799



		esults for the Quarter and Nine-months e						ended 31 December 2019 (₹ in Crore Consolidated				
SI. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2018	Nine months ended 31.12,2019	Nine months ended 31.12.2018	ended 31.03.2019	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	ended 31.12.2018	promise minima	Nine months ended 31.12.2018	Year onded 31.03.20 (Audited	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Total income from operations								75803.20	72852.22	95742.	
2	Net profit before tax (before exceptional items)	3422.04	3489.54	10082.15	9135.35	12672.52	3627.94	3722.76	10728.07	9536.29	13627.	
3	Net profit before tax (after exceptional items)	3422.04	3489.54	10082.15	9135.35	12672.52	3627.94	3722.76	10728.07	9536.29	13627.	
4	Profit after tax	2995.14	2385.41	8860.37	7399.57	11749.89	3197.73	2608.18	9446.93	7774.42	12633	
5	Profit after tax attributable to owners of the parent					La Pie	3179.06	2597.95	9417.02	7792.80	12640.	
6	Total comprehensive income after tax	2942.19	2419.36	8680.62	7413.66	11548.02	3147.55	2627.84	9274.54	7803.06	12442	
7	Paid-up equity share capital (Face value of share ₹ 10/- each)	9894.56	8245.46	9894.56	8245.46	9894.56	9894.56	8245.46	9894.56	8245.46	9894.	
8	Other equity excluding revaluation reserve as per balance sheet					97513.61					100142	
9	Earnings per share (of ₹10/- each) - (not annualised) (including net movement in regulatory deferral account balances): Basic and Diluted (in ₹)	3.03	2.41	8.95	7.48	11.88	3.21	2.63	9.52	7.88	12.	
10	Earnings per share (of ₹ 10/- each) - (not annualised) (excluding net movement in regulatory deferral account balances): Basic and Diluted (in ₹)	1.41	1.94	5,95	4.92	15.76	1.60	2.16	6.51	5.32	17.	

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results of the Company is available on the investor section of our website https://www.ntpc.co.in and under Corporate Section of BSF Limited and National Stock Exchange of India Limited at https://www.bseindia.com & https://www.nseindia.com Previous periods figures have been reclassified wherever considered necessary.

Place: New Delhi Date: 7th February 2020

> NTPC Limited (A Govt. of India Enterprise)

For and on behalf of Board of Directors

(A.K. Gautam) Director (Finance)

CIN: L40101DL1975G0I007966 | E-Mail: ntpccc@ntpc.co.in | Website: www.ntpc.co.in

Leading the Power Sector

Follow us on : A Intpc1 Intpclimited (Intpclitd1 Intpcltd1 Intpcltd1

Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi -110003

आज के आयोजन

महानगर

प्रातः 10.30 बजे- किदवई नगर ब्रहस्पति महिला महाविद्यालय में गीता मेला का शुभारंभ 🔳 प्रातः 11 बजे-कैण्ट छावनी परिषद विद्यालय में गंगा की स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम 🔳 प्रातः 11 बजे- पी रोड हर सहाय महाविद्यालय में करणी सेना की सीएए को लेकर गोष्ठी 🔳 दिन 12 बजे-गडरियन पुरवा में सिख कल्याण समिति द्वारा प्रदर्शन 🔳 दिन 12 बजे- गांधी नगर श्री शनि साई धाम मंदिर में भण्डारा दिन 12.30 बजे- आनन्दबाग ज्वाला देवी विद्या मंदिर में पुरस्कार वितरण 🔳 दिन 12.30 बजे- किदवई नगर महिला महाविद्यालय में कराटे आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला 🔳 दिन 1 बजे-बृजेन्द्र स्वरूप पालिका स्टेडियम में सागर स्कूल की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 🔳 शाम ३ ब्रजे- जाजमऊ प्रेरणा महिला समिति कार्यालय में ड्रीमिंग नार्थ इंडिया का कार्यक्रम 🔳 शाम ४ बजे-जरौली 2 मॉडर्न पब्लिक स्कूल में सेवा केंद्र का उद्घाटन।

हादसे में युवक की मौत नहीं हुई पहचान

कानपुर। कैंट चुंगी पुराना गंगा पुल के पास एक युवक पैदल शुक्लागंज की तरफ जा रहा था। इस दौरान गंगा घाट चौकी के सामने किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की घटनास्थल पर ही तड़प तड़पकर मौत हो गई। कैंट पुलिस ने शव शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन असफल रही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है।

शुद्धिपत्र

बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बेत्रीब कार्यातव — 117 / एन / 28, काकादेव कानपुर दिनांक 06.02.2020 को 'राष्ट्रीय सहारा' के कानपुर संस्करण प्रकाशित नीलामी सूचना के सन्दर्भ में अचल सम्पत्ति की नीलामी क्रमशः 1 श्रीमती शान्ति शर्मा एवं श्री महेश क्यार शर्मा (बंधककर्ता) 2. श्री ओम हरि पुत्र श्री राम शंकर 3. श्री परम सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह 4. मेसर्स वन्दना फ्लोर मिल प्रो. श्रीमती वन्दना द्विवेदी। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि उपरोक्त सभी खातों की सम्पत्ति की नीलामी की तिथि 09.03.2020 (12 बजे) को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 16.03.2020 (सोमवार) सायं 3-4 बज़े कर दी गयी है। अन्य नियम व शर्त मूर्ववत रहेगी। असुविधा के लिये खेद

दिनांक- 07.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी, बढ़ीदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, कानपुर

बिद्र गंगा में गिरने वाले नाले वेटलैंड विधि से साफ



बिठूर स्थित नाले में लगाए गये पेड़।

अब साफ पानी ही गंगा में गिरेगा

9 करोड़ का प्रोजेक्ट एक

साल में पूरा हुआ

🔳 सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

बिठ्रवासियों के लिए खुशखबरी है कि गंगा में गिरने वाले सारे नालों का पानी साफ कर लिया गया है। नालों के मुहाने परं वेट लैंड विधि से पानी को साफ किया जा रहा है और

साफ पानी ही गंगा में गिर रहा है। वेटलैंड विधि से नाले का पानी साफ करने का पहला सार्वजनिक प्रयोग है।

वेटलैंड विधि से नालों का पानी साफ करने का सबसे पहला प्रयोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में किया था। विश्वविद्यालय में अभी भी यही विधि प्रचलित हैं। बिठ्र की गंगा में लवकुश नाला, मन्नो नाला, पेशवा नाला, गंधारा नाला, ब्रह्मावर्त नाला, लक्ष्मण नाले गिरते हैं। इन नालों का करीब 1.3 एमएलडी पानी रोज गंगा में गिरता है। इन नालों में औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी नहीं जाता है। इन नालों में बिट्टर का घरेलू सीवरेज पानी गिरता है, जिसके कारण गंगा का पानी प्रदुषित

हो रहा था। करीब एक साल पहले गंगा में गिरने वाले नालों

का पानी साफ करने का प्रोजेक्ट बना था। करीब 9 करोड़ के प्रोजेक्ट के टेंडर में वेटलैंड विधि के ठेकेदारों को आमंत्रित किया गया था। लखनेऊ की एक फर्म ने करीब एक साल में टेंडर के मुताबिक वेटलैंड विधि से नालों के मुहाने पर पानी साफ करने का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है।

वेटलैंड विधि वेटलैंड विधि पूरी तरह से विशेष तरीके के पेड़ों से गंदे पानी की शोधन प्रक्रिया है। इसमें नालों के मुहाने पर पानी

की टंकी बनाकर पानी के बहाव को धीमा किया जाता है। इसके बाद दूसरी पानी की टंकी में लगे विशेष पेड़ों के बीच से गंदे पानी को निकाला जाता है। यही पेड़ पानी को साफ करके आगे गंगा में भेजते हैं, जिससे नियंत्रित बीओडी का पानी ही गंगा में गिरता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले पेड़ों की खास खूबी यह है कि शोधन के बाद पानी की गंदगी को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण यहां पर सफाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रोजेक्ट पूरा करने वाली फर्म को अगले दस साल तक इसका रखरखाव

प्रेमी संग फरार प्रेमिका को जीआरपी ने किया बरामद

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

पित को नशीली गोलियां खिलाकर ट्रेन से उतरकर प्रेमी के साथ भागी प्रेमिका को जीआरपी ने हरदोई से बरामद कर लिया। न्यायलय में बयान दर्ज कराने के बाद उसे पति के हवाले कर दिया गया।

मूल रूप से गोण्डा की रहने वाली एक विवाहिता अपने पति के साथ मुम्बई के कल्याण स्टेशन से सवार हुई। दोनों को गोण्डा आना था। सफर के दौरान जब ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची तो पत्नी ने चाय मंगाई। आधी चाय पीने के बाद पत्नी ने नशीली गोलियां मिलाकर बाकी चाय पति को पिला दी। ट्रेन के चलने के कुछ देर बाद पति पर बेहोशी छा गई। ट्रेन जब लखनऊ पहुंची तो व यहां आए हरदोई निवासी प्रेमी के साथ महिला फरार हो गई। गोण्डा पहुंचने पर पति को होश आया। पति ने गोण्डा जीआरपी में

पति को नशीली चाय पिलाकर हुई थी फरार

पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई। वहाँ से मुकदमा कानपुर जीआरपी स्थानांतरित किया गया। जीआरपी ने गुमशुदा महिला का मोबाइल नम्बर सर्विलांस पर लगाया तो लोकेशन हरदोई में मिली।

जीआरपी इंस्पेक्टर राम मोहन राय ने बताया कि इसके बांद एक टीम को हरदोड़ी भेजा गया। जहां महिला को प्रेमी के साथ बरामद कर लिया गया। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला का आयेदिन पति से झगड़ा होता था। इसी दौरान एक रांग नम्बर डायल करने के दौरान हरदोई निवासी प्रेमी से सम्पर्क हो गया था। दो साल से यह प्रेम संबंध चल रहा था। महिला को हरदोई में प्रेमी के घर से बरामद किया गया। मजिस्ट्रेट के समाने बयानी दर्ज कराने के बाद महिला को पति के सुपूर्द • कर दिया गया।

फरार आरोपी को पकड़ने गयी पुलिस से हाथापाई

कानपुर (एसएनबी)। मारपीट के मामले में तीन माह से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया। परिजनों और इलाकाई लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई की और चौकी प्रभारी जाजमऊ के बिल्ले नोंच लिये। मार खाने के बावजद पुलिस ने घेराबंदी नहीं हटायी और थाने से फोर्स बुलाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

चकेरी क्षेत्र में दिसम्बर 2019 में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई थी। दोनों गुटों के बीच क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर काफी समय से रंजिश चल रही थी। सूचना पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। तत्कालीन शिव गोदावरी चौकी प्रभारी शीलेन्द्र यादव की तहरीर पर छबीलेपुरवा निवासी आरिफ मोहम्मुद्ध और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज़ हुई थी। तब से आरिफ व उसके साथी फरार चल रहे थे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी। रविवार सुबह जाजमऊ चौकी प्रभारी अनुराग सिंह को मुखबिर से सूचना इंस्पेक्टर रणजीत राग को दी। थोड़ी देर बाद मिली कि आरोपी आरिफ अपने घर में मौजूद थाने से भारी पुलिस बल पहुंचा तो मोहल्ले वाले है। सूचना पर चौकी प्रभारी सिपाहियों को लेकर आरिफ के घर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों को आरोपी के परिजनों और इलाक्राई लोगों ने घेर लिया और गाली-गलौच करने लगे। पुलिस ने विरोध किया तो भीड़ हमलावर ह्ये गयी और

जाजमऊ पुलिस चौकीकर्मियों संग हुई घटना

मारपीट के मामले में तीन माह से फरार चल रहा था युवक मुखबिर की सूचना पर पुलिस

पहुंची तो परिजनों ने किच्या

थाने का फोर्स पहुंचने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सकी पुलिस

पुलिस को पीटने लगी। मारपीट के दौरान लोगों ने चौकी प्रभारी के बिल्ले नोंच लिये और उन्हें भी पीटा।

मार खाने के बाद भी पुलिस ने घेराबंदी खत्म नहीं की और मामले की जानकारी वहां से खिसक गये। पुलिस ने आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आयी। पुलिस ने बताया कि आरिफ के परिजनों ने पुलिस का विरोध किया था, बाद में और फोर्स पहुंचने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

घायल अवस्था में मिले

सुपरवाइजर ने दम तोडा कानपुर (एसएनबी)। कल्याणपुर के रावतपुर गांव निवासी संजीव निगम (51) सिविल ठेकेदार के साथ काम करते थे। पेशे से सुपरवाइजर संजीव निगम के घर में पत्नी स्मिता और बेटा यश है। वर्तमान में कानपुर देहात के जिला अस्पताल में कार्यरत बडे भाई वरिष्ठ चिकित्सक मनोज कुमार (उन्नाव में एडिशनल सीएमओ रह चुके) ने बताया कि गुरुवार शाम संजीव निगम साइट से घर के लिए निकले थे। देर रात वह पनकी नहर रोड किनारे रक्तरंजित हालत में मिले। उस दौरान संजीव निगम ने पुलिसकर्मियों को बताया था कि वह पनकी निवासी पूर्व सभासद रामऔतार के पड़ोसी हैं। पुलिस ने संजीव निगम को हैलट अस्पताल में भर्ती करा दिया। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें रीजेंसी लेकर चले गए। यहां रविवार सुबह इलाज के दौरान संजीव निगम की मौत हो गई। भाई मनोज कुमार ने बताया कि साइट पर काम करते वक्त एक व्यक्ति ने उनसे हफ्ता की मांग की थी। संजीव बिगम ने इनकार किया था तो दबंग ने उन्हें जान से मारने की घमकी दी थी लेकिन इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की थी। परिजनों को आशंका है कि हफ्ता न देने के कारण दबंग युवक ने उसकी वजनदार चीज से प्रहार कर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम को भेजा है। उधर, थाना प्रभारी पनकी विनोद कुमार का कहना है कि युवक हादसे का शिकार हुआ था। यदि परिजन कोई तहरीर देते हैं तो उसकी जांच के बाद कार्रवाई

की जाएगी।

योन शोषण से परेशान महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास

कानपुर (एसएनबी)। पनकी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता फांसी के फंदे पर लटक गई। समय रहते उसको परिजनों ने देख लिया, जिससे उसकी जान बच गई। शनिवार सुबह आरोपी उसके घर घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। तभी परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पनकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। आरोपी युवक पिछले एक साल से पीड़िता के परिजनों की हत्या करने व हिस्ट्रीशीटर भाई को जेल भिजवाने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था।

पनकी एसओ विनोद सिंह के मुताबिक पीड़िता का पड़ोसी दीपू तिवारी का पास में ही कारखाना है। वह पिछले एक साल से महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब पीड़िता विरोध करती थी तो वह उसके पति समेत अन्य परिजनों की हत्या करने की धमकी देता था। इससे क्षुब्ध 7 फरवरी की रात पीड़िता ने कमरे में जाकर फांसी लगाकर खुद्कुशी का प्रयास किया। ऐनवक्त पर पति ने उसको देख लिया। इससे उसकी जान बचायी गई। इधर 8 फरवरी को सुबह चार बजे दीपू तिवारी उसके घर पहुंच गया। इसके बाद उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसे कमरे में बंद कर लिया। परिजनों की नींद खुल गई और उसे मौके से ही पकड़ लिया।

हिस्ट्रीशीटर भाई को जेल भिजवाने की देता था धमकी, घर में कराता था पुलिस की दबिश

दुष्कर्म के इरादे से घर में घूसे युवक को महिला ने कमरे में कर लिया बंद, पुलिस को

इसके बाद आरोपी पर पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी देने, घर में घुसकर मारपीट करना और आत्महत्या के लिये प्रेरित करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है। पनकी एसओ का कहना है कि आरोपी दीपू तिवारी पीड़िता के हिस्ट्रीशीटर भाई को जेल भिजवाने की धमकी देता था। जब भी उसका भाई घर आता था तो वह पुलिस से मुखबरी कर देता था। इसके बाद वह महिला का शारीरिक शोषण करता था। घटना की रात जब आरोपी दीपू तिवारी पीड़िता के घर पहुंचा और महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो महिला ने उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। थाना प्रभारी का कहना है कि दीपू तिवारी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।

दिया। पहले तो उसने उनका सामना किया.

लेकिन जब वह लोग भारी पड़ने लगे तो वह

वहां से शोर मचाते हुए भागा। उसे भागते

संक्षिप्त खबरें

सीवर लाइन लीकेज बना, वाटर लाइन के बनने का इंतजार

कानपुर । साकेतनगर लीकेज मरम्मत के चल रहे कार्य में जलकल ने सीवर लाइन की तो मरम्मत पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक वाटर लाइन लीकेज की मरम्मत नहीं हो। सकी है। रविवार की सीवर लाइन लीकेज बनने के बाद जलकल ने निरालानगर रेलवे ग्राउंड से मिट्टी लाकर सीवर लाइन लीकेज के गड्डे को भरा। वाटर लाइन लीकेज के न बन पाने पर उसका गट्टा अभी तक नहीं भरा जा सका है। लीकेज न बन पाने की वजह से क्षेत्रीय व्यापारियों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं, किदवई नगर थाने से साकेतनगर तिराहे जाने वाले ट्रैफिक को भी साकेतनगर चौराहे के पहले दूसरी पट्टी पर डायवर्ट होना पड़ रहा है। जलकल की सुस्ती के चलते 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक लीकेज सही नहीं हो सका है, जबकि जलनिगम ने 4 फरवरी को ही अपने लीकेज मरम्मत का काम पूरा कर लिया था। जलकल अधिकारियों का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वाटर लाइन लीकेज का काम पूरा हो जाये।

नहर ओवर फ्लो घरों में भरा पानी कानपुर। नौरेयाखेड़ा से निकली

ह्लुआखाड़ा नहर के रविवार को ओवरफ्लो होने पर बर्रा-2 व साकेतनगर के निचले इलाकों की गलियों में पानी भर गया। घरों के अंदर तक जलभराव हो गया। पानी निकालने के लिए लोगों को काफी जहमत उठानी पड़ी। सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता यसीन खान ने बताया कि नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन साकेतनगर में कुडा-करकट काफी जमा है। इससे पानी के बहाव में अवरोध पैदा हो रहा है। पानी फ्लो से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी वजह से नहर ओवर फ्लो होने पर निचले इंलाकों में जलभराव हो गया है। हालांकि, अब सब सामान्य हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग बिना सूचना दिये नहर में पानी छोड़ देता है। अक्सर नहर ओवर फ्लो हो जाती है, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। घरों के अंदर तक पानी घुस जाता है। अचानक नहर ओवर फ्लो हो जाने से घर में पानी घुसने से काफी सामान खराब हो जाता है। (एसएनबी)

Frontier Springs Ltd.

(Largest Manufacturer of Springs for LHB Coaches)

Registered Office: KM 25/4, Kalpi Road, Rania, Kanpur-Dehat. 209304 CIN: L17119UP1981PLC005212

E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: http://www.frontiersprings.co.in

Tel. No. 0511-240212-13, 0512-2691207-08, Fax No. 0512-2691209 EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS' FOR THE QUARTER ENDED

31" DECEMBER, 2019

State No.		(Rs. in lakhs	, except per	share data
SI. NO.	Particulars			Previous year Quarter ender
		31,12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)
1	Total Income from operations	2867.60	7857.89	2118,47
2	Net Profit for the period before Tax	574.82	1284.65	238.10
3	Net Profit for the period after Tax *	427.25	947.70	194.61
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	431.11	959.65	197.17
5	Equity Share Capital	396.32	396.32	396.32
6	Reserves(excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year			ide sets of
7	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each)			Y 5174.
		10.95	24.37	5.01
	- Basic (Rs.) - Diluted (Rs.)	10.95	24.37	5.01
	*Not annualised *The Company does not have any Exceptional and Extraordinary items	2.		4

1. The above financial results, have been reviewed and approved by the audit committee and taken on record by the HOTESE Board of Directors at its meeting held on 08th February, 2020.

2. The Statutory Auditors have carried out limited review of the financial results for the quarter and ended 31st December, 2019 as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

3. This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards), Rules, 2015, as amended, prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued

4. Previous period figures have been regrouped/ reclassified where considered necessary to conform to current period's classification / disclosure.

5. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and also on the Company's Website www.frontiersprings.co.in

For and on behalf of the Board of Directors Kundan Lal Bhatla (Chairman cum Managing Director) DIN:00581799

वर्चस्व की रंजिश के चलते

युवक को सरेशाम गोली मारी

कानपुर (एसएनबी)। हरबंश मोहाल थाना क्षेत्र के व्यस्त तेलियाना चौराहे पर रविवार देर शाम एक युवक को वर्चस्व की रंजिश में गोली मार दी गयी। युवक रेलवे स्टेशन से पैदल घर जा रहा था। उसको गंभीर हालत में उर्सला में भर्ती कराया गया है। युवक ने कुछ दिन पूर्व हमलावरों द्वारा क्षेत्र में प्रथराव करने का विरोध करते हुए उन्हें खदेड़ दिया था, तब से वह रंजिश मानने लगे थे। पुलिस हमलावरों की तलाश कर

हरबंश मोहाल के दौलतगंज निवासी राम प्रकाश शुक्ला की बारादेवी में मिठाई की दुकान है। वह बेटे अंकित शुक्ला (24) के साथ दुकान में बैठते हैं। कुछ दिन पूर्व अंकित अपने दोस्त की शादी में ग्वालियर गया था। रविवार शाम को वह ग्वालियर से ट्रेन द्वारा लौटा और पैदल घर जा रहा था। अंकित ने बताया कि वह जब तेलियाना चौराहे पर पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाकर बैठे



हरबंश मोहाल क्षेत्र के तेलियाना चौराहे पर हुई घटना रेलवे स्टेशन से पैदल घर जा रहा था युवक, घेरकर मारा क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हमलावरों

के पथराव करने का विरोध किया था

और तीन अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया और पीटना शुरू कर उनकी तलाश की जा रही है।

कानपुर/चौबेपुर। चौबेपुर में रिश्तेदार की कानपुर/चाबपुर। पानपुर सरावार कानपुर/बिदूर (एसएनबी)। कस्बे के हाईवे पर एक बताया कि उसी समय उधर से दरोगा आरजे सिंह गुजर रहे थे। दौराम डूबकर मौत हो गई।

पनकी निवासी श्रवण द्विवेदी (55) अपने करीबी रिश्तेदार केदार दुबे के निधन ड्यूटी पर जा रहे दरोगा के टोकने पर पर चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरुवा गंगा घाट पर गमी में शामिल होने गए थे। जहां बरुवा घाट दौड़ाकर पीटा। सूचना पर बिठ्र पर अपने साथी अनुज तिवारी, पंकज दुबे, लक्ष्मण प्रसाद व भार्गव के साथ गंगा स्नान करने लगे। इस दौरान ज्यादा गहराई में जाने के कारण श्रवण द्विवेदी गंगा के तेज बहाव में डूब गए। साथियों ने उन्हें डूबता देख शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर घाट पर मौजूद गोताखोरों ने गंगा में छलांग लगा दी। पानी का बहाव तेज होने के कारण गोताखोर श्रवण द्विवेदी को खोज नहीं पाये। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने करीब दो किलोमीटर की दूरी पर उनके शव को गंगा से बरामद किया।

घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर उनके परिजनों को सूचित कर द्रिया।

देख शानू ने तमंचे से उसके ऊपर फायर कर दिया। गोली उसके दाहिने पैर में जा धंसी और वह गिर पड़ा। इस बीच गोली की आवाज पर इलाकाई लोग आ गये तो हमलावर वहां से भाग निकले। अंकित के पैर में गोली लगी देख उसका दोस्त नीरज उसे लेकर केपीएम पहुंचा, जहां से उसे उर्सला रिफर कर दिया गया।

, अंकित ने बताया कि शान् कुरैशी और उसकी बिरादरी के लोग क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं. जिसका वह विरोध करता है। कुछ दिन पूर्व शानू ने क्षेत्र में पथराव किया था, जिसका उसने विरोध किया और शान् व उसके साथियों को भगा दिया था। तब से वह लोग उससे रंजिश मानने लगे थे और मौका पाकर हमला कर दिया। हरबंश मोहाल इंस्पेक्टर ने

बताया कि वर्चस्व को लेकर युक्क पर सतरखाना निवासी शानू कुरैशी, कैफ, तौफीक, कैलाश राठौर हमला किया गया है। हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर

गमी में घाट गया बुजुर्ग गंगा वकील ने साथियों संग दरोगा को पीटा

बिठूर थाना क्षेत्र में हाईवे पर

घुइसवारी कर रहा था वकीलं

पीटने पर दरोगा ने टोक दिया

दुधिये ने वकील और साथियों

के खिलाफ दर्ज करायी रिपोर्ट

दूध लेकर गुजरे दूधिये को

साथियों संग सड़क पर

हुई घटना

शिवराजपुर थाने के एक दरोगा को महंगा पड़ गया। वीआईपी

हमलावरों ने उसे सडक पर दौडा-पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर जा चुके थे। दुधिये ने वकील और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है।

चौबेपुर थाना क्षेत्र के चौधरीपुर निवासी श्रीकांत दूधिया है। रविवार सुबह वह दूध बांटने के लिए निकला था। श्रीकांत ने बताया कि वह जब बिठ्र स्थित हाईवे पर पहुंचा तो वहां सड़क पर बैकुंठपुर निवासी वकील सत्येन्द्र अपने साथियों अभय, कन्हैया,

विनय, पंकज व तीन अज्ञात के साथ सड़क पर घोड़े और बाइक लेकर खड़ा था। वह उनके करीब से गुजरा तो वकील ने उस पर कमेन्ट्स कर दिया। इसका जब उसने विरोध किया तो वकील और उसके साथी उसे पीटने लगे। दूधिये श्रीकांत ने रही है।

दूधिये को पीट रहे वकील और उसके साथियों को टोकना उन्होंने जब बीच सड़क मारपीट होती देखी तो बाइक रोककर हमलावरों को टोक दिया। दूधिये ने बताया कि दरोगा का

टोकना हमलावरों को नागवार गुजरा और उन्होंने दरोगा को लात-घूंसों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। हमलावरों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर

दरोगा ने मामले की जानकारा बिठूर एसओ को दी तो हमलावर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस की दरोगा ने पूरी घटना बतायी और वीआईपी ड्यूटी में जाने की बात कहकर वहां से चला गया। दूषिय श्रीकांत ने रिपोर्ट दर्ज करायी है। बिठ्र पुलिस ने बताया कि आरोपी वकील

सत्येन्द्र और उसके साथियों ने मामूला बात पर पहले दूषिये को पीटा और विरोध करने पर शिवराजपर थाने के दरोगा को भी पीट दिया, जो वीआईपी ड्यूटी पर जा रही था। हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश की जा

Date: 08ª February, 2020

Place: Kanpur